



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज
जनसम्पर्क विभाग

सं.

कोर/जी/पी.आर./10

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.07.2021

कोर के कांस्टेबल को महानिदेशक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया

आरपीफ अधिकारियों एवं बल सदस्यों द्वारा अपनी जूटी के दौरान किए गए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य का उत्साहवर्धन/प्रोत्साहन हेतु महानिदेशक /आरपीफ / नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर प्रशंसा -पत्र /पुरस्कार /प्रतीक चिन्ह आदि प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रम में श्री कृपा शंकर वर्मा, कांस्टेबल /आरपीफ, जो वर्तमान में महानिदेशक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीफ /केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) प्रयागराज में पदस्थ हैं। इनके द्वारा अपनी जूटी के दौरान वर्ष, 2020-21 में रे0सु0ब0/कोर/ कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों को सत्यनिष्ठा व कुशलता पूर्वक निष्पादित किया गया है तथा भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे0सु0ब0 एवं पुलिस मुख्यालयों से पत्राचार हेतु मसौदा तैयार करने में इनका कुशल योगदान रहा है। इन्होंने लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की रिक्ति होने के कारण रेसुब/कोर के स्थापना संबंधी मामलों का भी समर्पण भाव से निस्तारित किया एवं कोविड-19 महामारी के दौरान रेल के अन्य विभागों के डीलर्स से अच्छे संपर्क स्थापित कर पत्रों को समय पर निष्पादित कराया गया। इस प्रकार का काँ0द्वारा किये गए उत्कृष्ट एवं सरहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुये इनके उत्साहवर्धन हेतु महानिदेशक/आरपीफ महोदय द्वारा श्री कृपा शंकर वर्मा, कांस्टेबल /आरपीफ को महानिदेशक प्रतीक चिन्ह (DG Insignia) प्रदान करते हुए अलंकृत किया गया है।

(अमिताभ शर्मा)
मुख्य जन संपर्क अधिकारी
कोर/प्रयागराज